

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियल अवॉर्ड जीता है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (8 मार्च, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लगातार 20<sup>वें</sup> वर्ष के लिए, अमेरिका (United States) और कॅनेडा (Canada) की गवर्नमेंट फाइनेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (जी.एफ.ओ.ए.) (Government Finance Officers Association) (GFOA) से कॅनेडियन अवॉर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग (Canadian Award for Financial Reporting) (CAnFR) जीता है।

सिटी की 2020 की [एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट \(Annual Financial Report\)](#) के लिए पेश किया गया CAnFR अवॉर्ड, सरकारी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है और लोकल सरकार तथा इसके प्रबंधन के द्वारा शानदार उपलब्धि का वर्णन करता है।

ब्रैम्पटन ने कॅनेडा के चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स (सी.पी.ए.) (Chartered Professional Accountants) (CPA) के पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग बोर्ड (पी.एस.ए.बी.) (Public Sector Accounting Board) (PSAB) के द्वारा तय किए गए जनर्ली अकसेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स (जी.ए.ए.पी.) (Generally Accepted Accounting Principles) (GAAP) की न्यूनतम से अधिक शर्तों को पूरा करके और पारदर्शिता और पूरे प्रकटीकरण की मूल भावना के साथ, एक व्यापक और उच्च-गुणवत्ता की सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके CAnFR अवॉर्ड जीता है।

CAnFR अवॉर्ड प्रोग्राम, कॅनेडा में म्युनिसिपल सरकारों को, उच्च-गुणवत्ता की रिपोर्टें प्रकाशित करने और इन रिपोर्टों को तैयार करने वाले अफसरों को सहयोगियों का सम्मान करने और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

निष्पक्ष कॅनेडियन रिव्यू कमेटी (Canadian Review Committee) के सदस्यों ने निर्णय किया कि सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रोग्राम के उच्च स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है, इसमें ब्रैम्पटन की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट तौर पर वर्णन करना और रिपोर्ट को पढ़ने के लिए संभावी उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ता समूहों को प्रेरित करने के लिए रचनात्मक तौर पर “पूरे प्रकटीकरण की भावना” दर्शाना भी शामिल है।

### हवाले

“फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित GFOA अवॉर्ड जीतना, पूरी पारदर्शिता और ठोस वित्तीय पद्धतियों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ब्रैम्पटन की स्थिति को मजबूत बनाता है, जब हम लगातार ब्रैम्पटन में निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। हमें गर्व है कि सिटी को लगातार बीसवें वर्ष के लिए यह अवॉर्ड मिला है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“CAnFR प्रोग्राम की कड़ी शर्तों को पूरा करने के लिए, हमारे स्टाफ के द्वारा खास प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो सालाना रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग करते हैं। हमें गर्व है कि ब्रैम्पटन ने लगातार बीसवें वर्ष के लिए यह अवॉर्ड जीता है। हम रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों को बधाई देते हैं।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“CAnFR अवॉर्ड, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इसके प्रबंधन के द्वारा खास उपलब्धि को दर्शाता है। ब्रैम्पटन अच्छी-तरह संचालित शहर है और हम पारदर्शिता तथा पारदर्शिता तथा पूरे प्रकटीकरण के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अवॉर्ड हमारे स्टाफ और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सिटी के उच्च स्टैंडर्ड्स की मिसाल है।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)